Escorts Finance Limited

Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad - 121003 (HR)

Phone: 0129-2250222, 2564222 E-mail: escortsfinance@escorts.co.in

Website: www. escortsfinance.com CIN: L65910CH1987PLC033652

September 9, 2022

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400051

BSE - 511716

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Publication regarding dispatch of Notice and Annual Report

Pursuant to the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that Company had published the enclosed newspaper advertisements dated September 8, 2022 intimating the dispatch of Notice of the Annual General Meeting ('AGM') and Annual Report of 34th AGM of the Company, book closure dates and other related information, in the newspapers i.e. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) dated September 9, 2022.

The above is for your kind information and records.

Thanking You,

For Escorts Finance Limited

Vicky Chauhan
Company Secretary

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

DEMAND NOTICE

Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IFL Home Finance Ltd. (IFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below. together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s) amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:

Name of the Borrower(s)/ **Demand Notice Date** & Amount Guarantor (s) 02-Sep-2022 & Mrs. Shamali Roy Rs.10,86,582.00/- (Rupees Ten Lakh Eighty Six Thousand Five Hundred Block-C, Sector, Omicron-01, Greater Noida, District Mr. Ashis Roy (Prospect No ÌL10138293) Eighty Two Only) Mr. Veeresh Kuma 02 - Sep - 2022 Rs.19,56,487.00/-Mrs. Roopali (Rupees Nineteen Lakh Fifty Six (Prospect No Thousand Four Hundred Eighty IL10085439) Seven Only) Mr. Salimon Ti 05 - Sep - 2022 Mrs.Sarada Raman Mrs.Shibi Sali (Prospect No

Mr. Naresh Kumar

M/S Naresh Dairy

Mrs.Manisha

(Prospect No 975060

and 968914)

Mr. Nishant Chandeliya,

Mrs. Amika, Dr. Nishant

Avurveda Clinic, Mr.

Vikas(Prospect No

944968 & 953800)

Mr. Yashpal Uppal

Mrs. Meenu Uppal

Mrs. Pushpa Rani

Yashpal Uppal

(Prospect No 946936 &

947457)

Mr. Naveen Singh

Mr. Ravi Singh

Mrs. Renu

Prospect No 858887 &

938487)

Mr. Vijay Arora

Mr.Dharmender

Mrs.Sharesh Kanta

Arora

(Prospect No 900776,

902399 and 944767)

Mr. Rohit Verma

Mr. Santosh Kumar Mrs. Sudha Devi

(Prospect No 879021)

Mr. Abhishek Srivastav

Mrs. Sonam Srivastava

(Prospect No 817415

and 819401)

Gfali No. 5, Uttam Nagar, New Delhi-110059. All that piece and parcel of the property being : Flat No A-4, Property Bearing No II/6, Mic Rs.31,68,136/- (Rupees Thirty One Ground Floor, Back Side, area admeasuring 5 Lakh Sixty Eight Thousand One sq. Mtr., Shakti Khand, Indirapuram, Ghaziabad Hundred Thirty Six Only) IL10027391) Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, 201010. 07-Sep-2022 & Rs.10,56,955/- All that piece and parcel of the property beir Mr. Subhash Chandra (Rupees Ten Lakh Fifty Six Thousand Ft., Block-H, Sector-4, Rohini, North West Delhi Kesarwani, Mrs.Meera Kesarwani (Prospect Nine Hundred Fifty Five Only) Delhi, India, 110085. No IL10023459)

Only) for **946936 & Rs.99,294/-**

Six Only) for **858887 &**

Eighty Six Only) for 938487

Seven Lakh Twelve Thousand Four

Hundred Twenty Two Only)

(Rupees Ninety Nine Thousand Two Delhi, 110086.

27-Aug-2022 & Rs.1,16,979/- All that piece and parcel of the property being Rupees One Lakh Sixteen Thousand Khatoni No. 80/83, Khasra No 142, Khata No. 84 Nine Hundred Seventy Nine Only) for Khasra No. 154, 1/6 Of Total Area 1 Kanal 18 Marle 975060 & Rs.22.46.423/- (Twenty Admeasuring Area 190.55 Sq. Yrds., Mauja Two Lakh Forty Six Thousand Four Machgar, Up Tehsil Dayalpur, Machhgar, Faridabad Hundred Twenty Three) for 968914 121004, Haryana, India. 02-Sep-2022 & Rs.20,90,167/-All that piece and parcel of the property being: R 29, Kh. No.-471, Ground Floor without roof rights (Rupees Twenty Lakh Ninety housand One Hundred Sixty Seven | admeasuring 200 Sq. Yds., Rita Block, Shakarpur Only) for 944968 & Rs.1.11.601/-Khas, Shahdara, Delhi, India-110092. (Rupees One Lakh Eleven Thousand

(Rupees Sixty Nine Lakh Eighty Nine Plot No. 13, admeasuirng 900 Sq. Ft., property out

Thousand Nine Hundred Forty Six of Mustatil No. 64, Killa No. 22, Situated in Block K

Six Hundred and One Only) for 953800 05-Sep-2022 & Rs.69,89,946/- All that piece and parcel of the property being

Village Pooth Kalan, colony known as 'Budh Vihar

Description of secured asset

(immovable property)

Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India, 201301.

All That Piece And Parcel Of The Property Bein

Measuring 50 Square Yards, Out Of Khasra No. 317

Situated in The Area Of Village Binda Pur, Delh

State Colony Known As Sanjay Enclave, In Block-B,

Built Up Property Bearing No. B-55, Land Area

All that piece and parcel of the property being : Flat

Hundred Ninety Four Only) for 947457 Rs.31,18.046 /-(Rupees Thirty One Al that piece and parcel of the property being Lakh Eighteen Thousand and Forty Second, Third & Fourth Floor, Part Of Plot No. IX/3990-A, admeasuring 42.5 Sq. Yds., Out Of Rs.1,53,286/-(Rupees One Lakh Khasra No. 139, Situated In The Residential Colony Fifty Three Thousand Two Hundred Known As Gali No. 19, Ajit Nagar, Area Of Village Seelampur, Gandhi Nagar, New Delhi, India-11003 06-Sep-2022 & 900776 is Rs.25,33,067/- All that piece and parcel of the property being: E-(Rupees Twenty Five Lakh Thirty Three 935, Area Ad measuring 100 Sq. Yards, Kh. No.-224 Thousand Sixty Seven Only) for **902399** Block-E, Village Saboli, East Gokul Puri, Harijan is Rs.16,03,640/- (Rupees Sixteen Lakh Basti, Meet Nagar, Nand Nagari, Delhi, 110094. Three Thousand Six Hundred Forty Only) Delhi, India. & 944767 is Rs.7,12,422/- (Rupees

02 - Sep - 2022 All that piece and parcel of the property being Rs. 20,53,420/- (Rupees Twenty Flat No. G 3, area admeasuring 750 Sq. Ft. Ground Lakh Fifty Three Thousand Four Floor, MIG, Back Side, Plot No. 47, Dlf Ankur Vihar Hundred Twenty Only) Loni, Ghaziabad, 201102, Uttar Pradesh,India All that piece and parcel of the proper 02-Sep-2022 & Rs.21,55,556/-(Rupees Twenty One Lakh Fifty Five | being : Aparment No. - , Mannat, Sun 6 - 0403 Thousand Five Hundred Fifty Six Only) area admeasuring 845 Sq. Ft., 4th Floor for 817415 & Rs.2,70,717/- (Rupees | Migsun Ultimo Plot No.-GH03, Sector

Mr. Pradeep Singh Mr.Ramesh Chand Rs.24,42,750/- (Rupees Twenty (Prospect No 757668) seven Hundred Fifty Only) Ghaziabad U.P- 201010, National Capital Region, India secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at IIFL House, India Infoline

Housing Finance Ltd., Plot No.30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar,/Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

BHARAT PRAKASHAN (DELHI) LIMITED

Regd. Office: Plot No. 4B, District Centre, Mayur Vihar Phase-1 Extension, New Delhi-110091 Tel.: 8860874360, E-mail: info@bpdl.in CIN: U22110DL1946PLC001017

NOTICE OF 77th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the 77th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the BHARAT PRAKASHAN (DELHI) LIMITED is scheduled to be held on Friday, September 30, 2022 at 03:00 PM (IST) at Anuvrat Bhawan, 210, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi-110002, to transact the business, as set out in the Notice convening the said AGM.

Members may note that Notice of the AGM along with Annual Report have been sent to their respective addresses registered with the Company on September 5, 2022.

The e-copy of the notice of the AGM along with Annual Report of the company is available on the website of the RTA (https://www.alankit.com/) at and may also be assessed and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

MANNER OF REGISTERING / UPDATING EMAIL ADDRESSES:

Members holding shares in physical form and who have not yet registered/updated their email address are requested to register/ update the same by writing to Alankit assignments Limited (RTA) at: rta@alankit.com along with copy of signed letter mentioning- Name of the shareholder. folio no., address, no. of shares held along with scanned copy of share certificate (front and back), self- attested copy of PAN card, self- attested copy of Aadhar & copy of cancelled cheque.

Members holding shares in dematerialized mode and who have not yet registered / updated their email address are requested to get their email address registered/updated with their respective Depository participants.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 20, 2022 (Tuesday) to September 27, 2022 (Tuesday).

NSDL. Members are requested to note the following:

Place: New Delhi

For All Advertisement Booking

Call: 0120-6651214

Dated: September 5, 2022

INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 duly amended and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the company is providing to its members the facility of remote evoting before the AGM, in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-voting are given in the notice of AGM and also available at the website of

(a) The remote e-voting shall commence on September 27, 2022 at 10:00 A.M. (IST) and shall end on September 29, 2022 at 05.00 P.M. (IST). The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

(b) The voting rights of the members will be in proportion to their share of the paid-up capital of the company as on September 23, 2022 (Cut Off date). A person whose name is recorded in the Register of members / Register of beneficial owners as on cut-off date only shall be entitled to avail the

(c) Any person who acquires shares or becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2022, may obtain the login ID and password for e-voting by sending a request to NSDL at their email Id: evoting@nsdl.co.in or may contact their toll free number: 1800-1020-990 or 1800 22 44 1020

(d) The members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again during AGM.

(e) The procedure for electronic voting is available in the notice of AGM as well as the email service of NSDL to the members.

(f) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

(g) Ajay Baroota, (Membership no. 3495 & CP no. 3945), Prop. Ajay Baroota & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Company to scrutinize the voting during the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner. For Bharat Prakashan (Delhi) Limited

(NAME: BHARAT BHUSHAN ARORA) Managing Director DIN: 01065301

ESCORTS FINANCE LIMITED

CIN: L65910CH1987PLC033652

Regd. Office: Plot No. 19, Industrial Area, Phase 2, Chandigarh - 160002 Phone: 0129-2250222, E-mail: escortsfinance@escorts.co.in, Website: www.escortsfinance.com

NOTICE OF 34™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Friday,

September 30, 2022 at 03:00 p.m.IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance

with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and Circulars issued by MCA and SEBI to transact the businesses as set forth in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM at www.evotingindia.com, Members participating through the VC/ OAVM

facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Notice is also given under Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Register of Members ("ROM") and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 23, 2022 to September 30, 2022 (both days inclusive). In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM ("Notice") and Annual Report of the Company, have been sent on

September 8, 2022 to the Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). Electronic Copies of the same are also available on the website of the Company, BSE Limited and Central Depositary Services (India) Limited (CDSL) at www.escortsfinance.com, www.bseindia.com and www.evotingindia.com respectively. Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM ("Insta Poll"):

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available during AGM ("Insta Poll") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Insta poll. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through email. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/ OAVM.

Your Company is pleased to offer Remote e-Voting facility and Insta poll through CDSL which would enable you to cast your vote

electronically in respect of business stated in the Notice of AGM. The Remote e-Voting details are as follows: Cut-off date for remote e-voting September 23, 2022 The period of remote e-voting shall commence at 9:00 AM on Tuesday, The remote e-voting period September 27, 2022 and end at 5:00 PM on Thursday, September 29, 2022. The remote e-voting shall be disabled for e-voting thereafter.

A person, whose name is recorded in the ROM or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Friday, September 23, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or participate at the AGM and voting through Insta Poll.

Manner of registering/ updating e-mail address who have not registered/ updated their e-mail address with the Company: Members who have not registered their e-mail address with the Company/ Depositary Participant are requested to submit the documents specified in the notice and get the e-mail registered so that they could be able to cast vote electronically as per the

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the e-voting System, you may refer the Frequently Asked

Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at Toll Free No.1800 22 55 33. By the order of the Board

For Escorts Finance Limited Vicky Chauhan Company Secretary

Date Demand notice

13,57,939.99

as on

19.04.2022

+ interest &

other expenses

05.09.2022

Possession Date

Place: Faridabad Date: September 8, 2022

AXIS BANK LTD. POSSESSION NOTICE

Retaill Asset Centre: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow, UP 226010. Registered Office: "Trishul"- 3rd Floor, Opp. Samartheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 Where as the undersigned being the Authorized Officer of AXIS BANK LTD, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise or power conferred under Section 13 (12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower's mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers confer on him under section 13(4) of the said Act read with the rule8 of the Said Rules. The borrower's mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to be deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of **AXIS BANK LTD**, for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each amount herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section(8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Name of the Borrowers/ **Guarantors/Address** M/s Habib Egg Store (Borrower) C/o R/o-1 1. Land/property Admeasuring Area Moh Makbra Najibabad, Bijnor Uttar Pradesh 246763 India, R/o-2 C/o Gokhle Marg Kotdwar, Tehsil & Post-kotdwar, district-Pauri Garhwal, Garhwal, Uttarkhand - 246149, Which Uttarakhand- 246149, near Axis Bank Kotdwar, Mohd. Faizan (Proprietor) S/o Gulam Sabir R/o-1 Muglusah Ward 9, Tehsil & Post Mohammad Akram, South - Property 22.04.2022 Najibabad, Bijnor, U.P. -246763 India, R/o-2 Mohalla Makbra Najibabad, Bijnor U.P. 2. Land/property Admeasuring Area 246763 India, Gulam Sabir (Guarantor) S/o Shop On Property No.931, Mohammad Habib R/o- 1 Mohalla Makbra Makbara (ajmal Khan Road) Najibabad, Bijnor U.P. 246763 India, Naseem Najibabad District-Bijnor, U.P. 246763 Ahmad (Guarantor) S/o Habib Ahmad, Abdul

Najibabad, Bijnor, U.P. 246763 India

Date- 09.09.2022

Description of the **Mortgaged Properties**

13.01 Sq.mt, Situated at Commercial Shop On Property No. 432, Najibabad Road, Tehsil- Kotdwar, District-paudi Is In The Name Of Gulam Sabir. Bounded as: East - Road, West -Property Of Seller, North - Property Of Of Umesh Nautiyal.

8.18 Sq.mt, Situated at Commercia Which Is In The Name Of Abdu Kayyum & Naseem Ahmad. Bounded Kayyum (Guarantor) S/o Habib Ahmad both as: East - Road, West - Shop O R/o Moh- Muglusah, Ward -9, Tehsil & Post- Mohammad Yakub, North - Ajmal Khar Road, South - House Of Parvez Alam.

Authorized Officer, Axis Bank Ltd



The Indian Express. For the Indian Intelligent.

financialexp.epap.in

* The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE -

SASI POWER PRIVATE LIMITED (In Liquidation) NOTICE FOR EXTENSION OF TIME OF SUBMISSION OF BID Originally Published on 23.08.2022 SUBJECT: CHANGE OF DATE OF E-AUCTION

In partial modification to our earlier publication of sale notice of Sasi Power Private Limited dated 23.08.2022, the last date for submission of EOI/ documents has been changed from 06.09.2022 to 26.09.2022 by 5:00 P.M. and the Date of E-Auction has been rescheduled from 09.09.2022 to 29.09.2022 from 12.00 Noon. to 2:00 p.m. (with unlimited extension of 5 mins) at the same time. All other Terms and Conditions remains the

Interested applicants are advised to refer to Bid Document and submit completed Bid Documents along with proof of deposit of EMD in hard copy to the liquidator and upload on e-auction website https://www.bankeauctions.com before the applicants may contact liquidator at 011-41536635/ 9810265565 or Mr. Umesh Gupta at +91-9910024854 or Mr. Vinod Chauhan (Team E-Auction Agency) delhi@c1india.com, Ph.:+91-9813887931

Address: 1001, Vikrant Tower. Rajendra Place, New Delhi-110008 Email: sasipower.liquidator@gmail.com. info@jainandpartners.com Place: New Delhi Ph No.: 011-41536635/ 981026556

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Where service is a way of life

पंजाब एण्ड सिंध बेंक

जोनल आफिस नोएडा, सी-1ए, सैक्टर-63, नोएडा, **पन्नेन 0120-4314956**

ई-नीलामी सूचना

अचल बंधक सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना,

ईएमडी (धरोहर राशि) तथा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि व समय : 30-09-2022 को सांय 4.00 बजे तक बैंक के प्रभाराधीन चल एवं अचल आस्तियों की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन बिक्री

अचल सम्पत्ति का विवरण

| 5 | | | | जनल सन्नास | 9/1 199371 | in the second se | 22 | | 10. | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|
| शाखा एवं कर्जदार का नाम | सम्पत्ति का विवरण | कब्जे की स्थिति | मांग सूचना की तारीख बकाया राशि | आरक्षित मूल्य | जमा धरोहर राशि (ईएमडी) और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | ई एम डी प्रेवण खाते का विवरण | ई—नीलामी की तिथि एवं समय | निरीक्षण की तिथि एवं समय | बोली वृद्धि राशि | प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं. |
| गाजियाबाद उधारकर्ताः पेरिडॉट | नं. 06, औद्योगिक क्षेत्र, मेरठ रोड, गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति विनोद कुमार के नाम पर है। क्षेत्रफल 16.66 वर्ग गज | | 26.03.2019 रु. 3,94,218 दिनां क 28.02.2019 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित | पाँच लाख दस हजार | फ. 51,000/- (क. इक्यावन | A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of | बजे से | 22.09.2022 पूर्वा. 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक | रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) | ईमेल — g0191@psb.co.in |
| गाजियाबाद कर्जदार — रीता लाल शर्मा, गारंटर — भूपिंदर गुप्ता | एक्सटेंशन— I, पर्सौदा लोनी, गाजियाबाद, यह सम्पत्ति रीता लाल शर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मी. | | 30.06.2018 तक प्लस | तेईस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) | सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) | A/c Name - ZO Noida A/c | 01.10.2022 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक | 22.09.2022 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 02.00 बजे तक | रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) | श्री नितेश कुमार मो. — 8288044464 ईमेल — g0191@psb.co.in |
| गाजियाबाद उधारकर्ता — हरीश शुक्ला, गारंटर — महामाया प्रसाद | के अधिकार के, एम आई जी, प्लॉट नं. बी1/1, गंगा विहार, सादुलाबाद लोनी गाज़ियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति हरिश शुक्ला के नाम पर है। क्षेत्रफल — 55.74 वर्ग मीटर | | 31.01.2022 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित | पदंह लाख अस्सी हजार मात्र) | लाख अट्ठावन हजार मात्र) 30.09.2022 को अर्पा, 04 बजे तक | A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of Beneficiary - Punjab & Sind IFSC কাত্ত - PSIB0021511 | पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक | से अर्पा. 04.00 बजे तक | A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA | श्री नितेश कुमार मो. — 8288044464 ईमेल — g0191@psb.co.in |
| गाजियाबाद उधारकर्ताः नरेश कसाना और मंज कसाना | एमआईजी श्याम पार्क एक्स. लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति नरेश कसाना के नाम पर है। | सांकेतिक | 02.05.2015 रु. 2367482 दिनां क 31.03.2015 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित | ক. 19,00,000/- (ক. उन्नीस लाख मात्र) | लाख नब्बे हजार मात्र) 30. | A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of | पूर्वा. 11.00 बजे से | पूर्वा. 10.00 बजे | रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) | श्री नितेश कुमार मो. — 8288044464 ईमेल — g0191@psb.co.in |
| उधारकर्ता — सुश्री ज्योति गारंटर— विजय पाल | लाजपत नगर, गाजियाबाद, यूपी. में स्थित, यह सम्पत्ति वीर सिंह के नाम पर | सांकेतिक | | चौदह लाख पच्चपन हजार मात्र) | लाख पैतालीस हजार पाँच | A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of Beneficiary - Punjab & | पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 01.00 | 23.09.2022 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 02.00 बजे तक | रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) | श्री नितेश कुमार मो. — 8288044464 ईमेल — g0191@psb.co.in |
| गाजियाबाद | डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-2, | | 30.09.2021 रु. 887310.74 दिनांक 30.09.2021 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित | रु. 37,00,000/- (रु. सँतीस लाख मात्र) | लाख सत्तर हजार मात्र) | A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of | पूर्वा. 11.00 बजे से | अर्पा. 02.00 बजे | (रु. दस हजार | श्री नितेश कुमार मो. — 8288044464 ईमेल — g0191@psb.co.in |
| गाजियाबाद उधारकर्ताः दर्शनी गारंटर — शैलेंद्र सिंह और रतन सिंह बिष्ट | लाजपत नगर साहिबाबाद, गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति दर्शनी देवी के नाम पर है। क्षेत्रफल 35.78 वर्ग मी. | | का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित | तेईस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) | सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) 30,09,2022 को अर्पा. 04 बजे तक | A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of Beneficiary - Punjab & Sind IFSC कोड - PSIB0021511 | पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक | से दोपहर 12.00 बजे तक | रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) | श्री नितेश कुमार मो. — 8288044464 ईमेल — g0191@psb.co.in |
| उधारकर्ता — मधु शर्मा और लोकेश कुमार | स्थित, यह सम्पत्ति मधू शमा क नाम पर | | 23-05-2013 रु. 1465829/- दिनांक 30.04.2013 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित | रु. 11,00,000/- (रु. ग्यारह लाख मात्र) | लाख दस हजार मात्र) 30. | A/c Name - ZO Noida A/c E-Auction Name of | पूर्वा. 11.00 बजे से | 27.09.2022 पूर्वा. 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक | रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) | श्री अमित रंजन मो. — 9528293810 ईमेल — zo.noida@psb.co.in |
| | शाखाः मुरादनगर गाजियाबाद उधारकर्ताः पेरिडॉट इंफ्राटेक प्रोप. विनोद कुमार गारंटर — यशपाल सिंह शाखाः पसौँदा गाजियाबाद कर्जदार — रीता लाल शर्मा, गारंटर — पूर्पेदर गुप्ता शाखाः पसौँदा गाजियाबाद उधारकर्ता — हरीश शुक्ला, गारंटर — महामाया प्रसाद शाखाः — पसौँदा गाजियाबाद उधारकर्ताः नरेश कसाना और मंजू कसाना और मंजू कसाना गारंटर — अर्रविंद कुमार शाखाः पटला उधारकर्ताः नरेश ज्योति गारंटर — अर्ववंद कुमार शाखाः पटला उधारकर्ताः — सुश्री ज्योति गारंटर — वजय पाल नागर शाखाः रेलवे रोड गाजियाबाद कर्जदार — अवनीश अग्निहोत्री और जितंद्र कौर, गारंटर — राजेश राम चंद्राणी शाखाः रेलवे रोड गाजियाबाद उधारकर्ताः दर्शनी गारंटर — शैलेंद्र सिंह और रतन सिंह बिष्ट शाखाः एसडी कॉलेज उधारकर्ताः न सुश्री कॉलेज | सम्पत्ति का विवरण नाम शाखाः मुरादनगर गाजियाबाद उद्यारकर्ताः पेरिडाँट इंफ्राटेक प्रोप. विनोद कुमार गारंटर — यशपाल सिंह शाखाः पसौँदा गाजियाबाद कर्जदार — शैता लाल शर्मा, गारंटर — भूपिंदर गुप्ता शाखाः पसौँदा गाजियाबाद उद्यारकर्ता — हरीश शुक्ता, गारंटर — महामाया प्रसाद शाखाः पसौँदा गाजियाबाद उद्यारकर्ता — हरीश शुक्ता, गारंटर — महामाया प्रसाद शाखाः — पसौँ दा गाजियाबाद उद्यारकर्ता नरेश कसाना और मंजू कसाना गारंटर — अरविंद कुमार शाखाः पटला उद्यारकर्ता — सुश्री ज्योति गारंटर — विजय पाल नागर शाखाः पटला उद्यारकर्ता — सुश्री ज्योति गारंटर — विजय पाल नागर शाखाः पटला उद्यारकर्ता — सुश्री ज्योति गारंटर — विजय पाल नागर शाखाः पटला उद्यारकर्ता — सुश्री ज्योति गारंटर — विजय पाल नागर शाखाः पटला उद्यारकर्ता — सुश्री ज्योति गारंटर — विजय पाल नागर शाखाः पेलवे रोड गाजियाबाद कर्जदार — अवनीश अभिनहोत्री और जितेंद्र कौर, गारंटर — राजेश शाखाः रेलवे रोड गाजियाबाद उद्यारकर्ताः वर्शनी गारंटर — शतेंद्र सिंह और रतन सिंह बिष्ट शाखाः एसडी कॉलेज उद्यारकर्ता — मुद्र शर्मा और लोकेश कुमार स्थित, यह सम्पति वर्शनी येवी के नाम पर है। क्षेत्रफल 35.78 वर्ग मी. | शाखाः पुरादनगर गाजियाबाद प्रथम तल छत के अधिकार सहित, प्लॉट गं. 06, अोडोगिक क्षेत्र, मेरठ रोड, गाजियाबाद प्रधारकर्ताः पेरिडॉट इंफ्राटेक प्रोप. विनोद कुमार के नाम पर है। क्षेत्रफल 16.66 वर्ग गज गाउँटर — यशपाल सिंह शाखाः पसौँदा गाजियाबाद कर्जदार — शैता लाल हार्मा, गारंटर — भूपिंदर गुप्ता शाखाः पसौँदा गाजियाबाद कर्जदार — शैता लाल हार्मा, गारंटर — भूपिंदर गुप्ता शाखाः पसौँदा गाजियाबाद कर्जदार — हरीश हो। क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मी. गाजियाबाद पसौँदा गाजियाबाद कर्जदार — हरीश हो। क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मी. गाजियाबाद पमहामाया प्रसाद — कर्षायकर्ता — हरीश हो। क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मी. गाजियाबाद लेकी, गाजियाबाद कर्माया प्रसाद — महामाया प्रसाद — पसौँदा गाजियाबाद कर्माया पर है। क्षेत्रफल 59.2 वर्ग मी. सांकेतिक लिक नाम पर है। क्षेत्रफल कराना गारंटर — अरविंद कुमार सांकेतिक लिट ने सम्पत्ति तेर सिंह के नाम पर है। क्षेत्रफल 27.22 वर्ग मी. सांकेतिक नाम पर है। क्षेत्रफल 27.22 वर्ग मी. सांकेतिक नाम पर है। क्षेत्रफल हित्र हो हो हो के नाम पर है। क्षेत्रफल हित्र हो | सम्मित का विवरण नाम शाखाः मुरादनगर पाजियाबाद उद्यागत को जी के अधिकार सहित प्लीट पं गाजियाबाद विनोद कुंगार के नाम पर है। क्षेत्रफल 16.66 वर्ग गाजियाबाद में रिश्वत यह सम्मित विनोद कुंगार के नाम पर है। क्षेत्रफल 16.66 वर्ग गाजियाबाद कर्जदार — शिवा लाल सम्मित को लाल शाकि विकार प्राणियाबाद कर्जदार — शिवा लाल सम्मित को लाल शाकि विकार कर्णदार — शिवा लाल सम्मित के अधिकार के एम आई जी, लॉट नं बीगित विकार के अधिकार के एम आई जी, लॉट नं बीगित विकार के अधिकार के एम आई जी, लॉट नं बीगित विकार के अधिकार के एम आई जी, लॉट नं बीगित वा नाम पर है। क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मी. शाखाः पसींदा गाजियाबाद के अधिकार के एम आई जी, लॉट नं बीगीत नाम पर है। क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मी. शाखाः पसींदा गाजियाबाद के अधिकार के एम आई जी, लॉट नं बीगीत नाम पर है। क्षेत्रफल 54.34 वर्ग मी. शाखाः पसींदा गाजियाबाद के अधिकार के एम आई जी, लॉट नं बीगीत नाम पर है। क्षेत्रफल 55.74 वर्ग मीटर महामाया प्रसाद पाजियाबाद में स्थित, यह सम्मित हिरो का समित के अधिकार के एमआईजी श्याम पार्क एक्स लाजपत नगर साविवाबाद, गाजियाबाद में स्थित, अध्य माप के एक्स लाजपत नगर साविवाबाद में स्थित, यह सम्मित के अधिकार के एम आईजी श्याम पार्क एक्स नाम पर है। क्षेत्रफल 59.2 वर्ग मी. शाखाः पटला ख्यारकर्ता नरे का काना गारंपर — अवनीय और किंद के समित अपनीय पारंपर — विजय पान नाम पर है। क्षेत्रफल 59.2 वर्ग मी. शाखाः पटला ख्यारकर्ता – सुशी ज्योति गारंपर — विनय पान के अधिकार के स्मान के नाम पर है। क्षेत्रफल करना को जीर किंद के से अप प्रमार इस्पादि सहित विनय पान नाम स्मान के नाम पर है। क्षेत्रफल 59.2 वर्ग मी. शाखाः पटला ख्यारकर्ता — सुशी ज्योति गारंपर — विनय पारंपर — विनय पान के पारंपर मापंपर मापंपर मापंपर मापंपर के स्मान के नाम पर है। क्षेत्रफल के अधिकार के स्मान के नाम पर है। क्षेत्रफल के से के जाम पर स्मान के नाम पर साविवावाद मापियाबाद में स्थार के से के से के माप पर साविवावाद मापियाबाद में स्थार यह सम्मित विनय के माम पर है। क्षेत्रफल के से अच्या मापंपर ना से के नाम पर है। क्षेत्रफल के से अच्या मापंपर न | साखा एवं कर्जवार का नाम प्रश्न का विवरण नाम प्रश्न का नाम प्रश्न का विवरण नाम प्रश्न का नाम प्र | कर्जदार का नाम शाखा-पुरादनगर गाजियाबाद वेदा स्वाप्त के अविकार सहित, रवींट ना. 06. औद्योगिक क्षेत्र, बेरठ रोड, उधारकरां: पेरिशेट इंडिक्टक प्रीप्त विद्याम से हिमान के नाम पर है। क्षेत्रकल 64.34 वर्ग मी. शाखा-पत्तीय पालियाबाद हे स्विद्य, यह सम्मति होनां के नाम पर है। क्षेत्रकल 64.34 वर्ग मी. शाखा-पत्तीय पालियाबाद हे स्वर्ण से क्षित्रकल 64.34 वर्ग मी. शाखा-पत्तीय पालियाबाद कर्जदार – प्रतीय ताले, गाजियाबाद में हिमान के नाम पर है। क्षेत्रकल 64.34 वर्ग मी. शाखा-पत्तीय पालियाबाद कर्जदार – पत्तीय ताले, गाजियाबाद में हिमान के नाम पर है। क्षेत्रकल 64.34 वर्ग मी. शाखा-पत्तीय पालियाबाद वेद्याम ने सिमान के नाम पर है। क्षेत्रकल 64.34 वर्ग मी. शाखा-पत्तीय पालियाबाद पालियाबाद वेद्याम ने सिमान के नाम पर है। क्षेत्रकल 64.34 वर्ग मी. शाखा-पत्तीय पालियाबाद वेद्याम ने सिमान के नाम पर है। क्षेत्रकल के प्रतास के क्षित्रकल के प्रतास के क्षत्रकल के क्षत्रकल के क्षत्रकल के क्षत्रकल के प्रतास के क्षत्रकल के | शाखा एवं कर्णवार का सम्मित का विवरण कम्मे के कियाँ कम्मे के कियाँ कम्मे का विवरण कम्मे के कियाँ कम्मे के कियँ कम्मे के कियाँ कम्मे के कम्मे के कियाँ कम्मे के कम्मे के क्मे के कियँ कम्मे के कियाँ कम्मे के कियाँ कम्मे क | साखा एवं कर्णाया वा | सम्माति का विवरण प्राप्त प्रा | समाया पर्व कर्णना पर्व कर्णना कराव कर्णना कर्णना कर्णना कर्णना कर्णना कर्णना कर्णना कर्णना कराव करणना कर्णना करणना कर्णना कर्णना करणना कर |

नियम व शर्तः-

- 1. ई-नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जोभी है" आधार पर आयोजित की जा रही है
- 2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति / यों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन, बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों / अधिकारों / देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 3. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और संतुष्ट करने की बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी।

शाखाः होलीगेट, मथुरा गेट

अतिम सूचना

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा होलीगेट मथुरा, के निम्नलिखित लाकर धारको को इस आम नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता हें कि दिनांक 26.09.2022

तक लाकर धारक अथवा लाकर से किसी भी प्रकार से वास्ता रखने वाला लाकर को ओपरेट करना एवं उसका बकाया किराया देना सुनिश्चित करे। ऐसा न

उपलब्ध पता

1748 अंता पाड़ा मथुरा उ. प्र. 281001

ओबीसी मथुरा उ. प्र. 281001

तिलक द्वार मथुरा उ. प्र. 281001

135, कृष्णा पूरी मथुरा उ. प्र. 281001

पुत्र स्व. श्री गोपाल चंद मेहरा 746, सतघरा मथुरा मथुरा उ. प्र. 281001

15, मैना गढ़ मथुरा उ. प्र. 281001

डेमपिएर नगर मथुरा उ. प्र. 281001

करने की स्थिति में बैंक के पास लाकर को तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और इसके लिए लाकर धारक स्वय उत्तरदायी होंगे।

- इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा कर दी है वे लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई—बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए हैल्प लाईन नं. +91 7291981124. 7291981125, 7291981126, हैल्प लाईन ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com और किसी भी संपत्ति से संबंधित पूछताछ हेतु किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय के समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
- एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही, वेलिंड युजर आई डी और पासवर्ड धारक बोलीकर्ता ही ई--नीलामी में भाग ले सकेंगें।
- 30.09.2022 को सांय 4.00 बजे तक, ऑनलाइन माध्यम से अपनी ईएमडी जो आरक्षित मूल्य से कम न हो, जमा करने वाले इच्छ्क निविदाकार ई—निविदाकरण प्रक्रिया में भागीदारी के लिए पात्र होंगे। उपर्युक्त संपत्तियों की ई—नीलामी प्रत्येक संपत्ति के लिए निर्दिष्ट तिथि और समय पर निविदाकारों के बीच परस्पर बोली द्वारा आयोजित की जायेगी। निविदाकार प्रत्येक संपत्ति के लिए कॉलम "बोली वृद्धि राशि" के तहत बतायी राशि के गुणक के अपने प्रस्ताव बढ़ा सकेंगे। यदि ई—नीलामी समाप्ति के अंतिम 5 मिनटों में कोई बोली की जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ (5 मिनट अवधि के सीमित विस्तारों के तहत) जायेगा। निविदाकार जो ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्ति पर उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम न हो) जमा करता है वह सफल बोलीकार घोषित किया जायेगा और इलैक्ट्रोनिक माध्यम से इस प्रभाव की सूचना दी जायेगी जो प्राधिकृत अधिकारी / प्रत्याभूत लेनदार द्वारा अनुमोदन के तहत होगी।
- सफल बोलीकार की धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री राशि में समायोजन के लिए रोक ली जायेगी और असफल निविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं होगी। सफल बोलीकार को ईएमडी राशि समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य की 25% राशि बोली मूल्य स्वीकार होने की स्थिति में तुरंत प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी और बिक्री मूल्य की शेष 75% राशि बिक्री के 15वें दिन या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवेक से लिखित में सहमत ऐसी किसी विस्तारित अविध में जमा करनी होगी। सफल बोलीकार द्वारा भूगतान में चूक पर पूर्व में ऑफर द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा और संपत्ति की पुनः नीलामी की जायेगी और चूककर्ता बोलीदाता की संपत्ति / राशि के संबंध में कोई दावा / अधिकार नहीं होगा।
- 8. संभावी अर्ह बोलीकार ई—नीलामी की तिथि से पूर्व **मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि.** से ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। किसी इंटरनेट नेटवर्क समस्या के लिए न तो प्राधिकृत अधिकारी / बैंक और न ही **मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि.** जिम्मेदार होगा और इच्छ्क बोलीकार स्वयं सुनिश्चित करें कि वे ई-नीलामी में भागीदारी के लिए तकनीकी रूप में सुसज्जित हैं।

लागू स्टाम्प इयूटी / अतिरिक्त स्टाम्प इयूटी / हस्तांतरण प्रभार, शुल्कों आदि और पूर्व में और भविष्य में किसी को देय सभी सांविधिक / गैर—सांविधिक देयों, करों, दरों, निर्धारण प्रभारा, शुल्क आदि क्रेता को स्वयं वहन करने होंगे।

- 10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिये किसी या सभी प्रस्ताव (ओं) को स्वीकार या अस्वीकार करने / ई—नीलामी को रोकने / स्थगित / रदद करने का अधिकार
- 1. बोलीकारों को सलाह है कि अपनी निविदा जमा करने और ई-नीलामी में भागीदारी से पूर्व मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि. की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों को अच्छी तरह देख-समझ लें।

सरफासी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक 15/30 दिन बिक्री सूचना

नोटः यदि बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया तो उपरोक्त तिथि पर प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी आयोजित करने के संबंध में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत उपर्युक्त ऋण के कर्जदार / जमानतियों / बंधककर्ताओं को यह भी एक सूचना है।

तिथि : 08.09.2022, स्थान : नोएडा

पंजाब नेशनल बेंक

लाकर धारक का नाम

अवदीश कुमार माथुर

सरिता रानी अग्रवाल

राकेश गैरोला

नितिन गर्ग

बी. सी. मेहरा

दिनाकः 08.09.2022, स्थानः मथुरा

कौशल किशोर अग्रवाल

भूपेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह

मोहनप्यारी पत्नि श्री वेद प्रकाश गौतम

विपिन बंसल पुत्र श्री श्याम सुंदर बंसल

राज कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द्र

COURT NOTICE In The Court Of Sh. Reetbrinder

Singh Dhaliwal JMIC, Bathinda M/s Unique Farm Aid Pvt M/s New Chiudhary Trading

CNR NO: PBBT03-006121-2019 Next Date: 11-10-2022 Publication Issued To: Sh Lal

Bahadur S/o Teja Ram :- Prop Of M/s New Choudhary Trading Co., Booth No. 23, Anaj Mandi, Fatehbad Haryana 125050 2nd Addres- Village Dhan Khurd (3), Po Jandwala, Fatehbad Haryana In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through ounsel on 11-10-2022 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district

otice&district=Bathinda JMIC Bathinda rict=ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana n the Court Of Ms. Divya Sharma JMK Date: 17-10-2022 Next date, purpose of case, orders and judgments: as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Mohd Imran CNR NO: PBLD03-036085-2019 Publication Issued To: Mohd Imran Address- S/o Usman Hussain R/o

Kotak Mahindra Bank Limited

Hno 12 47 Zafarpur Moradabad 202411 Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of rivice. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you

with a direction that you should appear personally before this court on 17-10-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this octamation, take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to:

JMIC Ludhiana

बैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda

जेडओएसएआरबी, चौथा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-110008,

मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

armdel@bankofbaroda.co.in, मो.: 9711908984 परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) देखें]

puniab national bank

...the name you can BANK upon!

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभृत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत — दाता की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम

| कर्जदार और गारंटर्स का नाम एवं पता | अचल संपत्ति का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो | कुल बकाया | आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि | ई—नीलामी तिथ्य एवं समय | कब्जा की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक) | निरीक्षण की तिथ्यि एवं समय |
|---|---|---|---|--|---|---|
| (कर्जदार) पताः 801-814, 8वां तल, सी-58 शाहपुरी तीरथ सिंह टॉवर, कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058 मैसर्स अल्टीमेट इंफोविजन प्रा. लि., (कॉपोरेट गारंटर और बंधककती), पताः बी-05, सी-58, शाहपुरी तीरथ सिंह टावर, कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई | लीज होल्ड भूमि का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 12ए, क्षेत्रफल 38014.54 वर्ग मी., सेक्टर—नॉलेज पार्क—03, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र, जिला जी.बी. नगर (यू.पी.) में स्थित, साथ भवन और संरचनाओं के साथ, यह सम्पत्ति मैसर्स अल्टीमेट इंफोविजन प्रा. लि. के नाम पर है। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(7) (ए) के अनुसार, जीएनआईडीए की ज्ञात ऋणभार / बकाया राशि क. 22,27,70,191.00 (रुपये बाईस करोड़ सत्ताईस लाख सत्तर हजार एक सौ इक्यान्वे केवल) जैसा कि जीएनआईडीए के पत्र दिनांक 10.12. 2021 द्वारा सूचित किया गया है उपरोक्त संपत्ति पर देय जीएनआईडीए सहित सभी वैधानिक देय नीलामी क्रेता / बोलीदाता द्वारा यहन किया जाएगा। | भविष्य का ब्याज, लागत एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित, जैसा कि अधिनियम की घारा 13(2) के तहत जारी मांग नोटिस में कहा गया है, बाद में जमा की गई राशि | ₹ 3.10 करोड़ ₹ 5.00 लाख | 28-09-2022 को अपींड 02.00 बजे से अपींड 06.00 बजे तक | | 23-09-2022 को पूर्वाइ 11.00 बजे से अपींड 04.00 बजे तक |

उपरोक्त संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित सभी प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in

पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी मो.: 9711908984 से सम्पर्क करे।

दिनांक : 08-09-2022, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब नैसनल बेंक 🤟 punjob notional bank निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रभाग

द्वितीय तल, प्रधान कार्यालय प्लॉट संख्या 5, संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर 32, गुरुग्राम-122001

ईमेल: iadisaudit@pnb.co.in टेली: 0124 - 4176968 / 4126509 पंजाब नैशनल बैंक एप्लीकेशन (वेब/मोबाइल) के सोर्स कोड रिव्यू के संचालन हेतु बाह्य आईएस ऑडिटर की नियुक्ति के लिए आरएफपी हेतु पात्र बोलीदाताओं से ऑनलाइन बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) आमंत्रित करता है।

इच्छुक बोलीदाता विस्तृत आरएफपी दस्तावेज डाउनलोड करने के

लिए हमारी ई-क्रय वेबसाइट https://etender.pnbnet.in या https://pnbindia.in पर जा सकते हैं। हमारे ई-क्रय सिस्टम के माध्यम से डिजिटल प्रमाणपत्र (हस्ताक्षरित और एन्क्रिप्शन) का उपयोग करके बोलियों को ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। ऑनलाइन बोली तैयार करने और हैश जमा करने की अंतिम तिथि 30.09.2022 को 1500 बजे तक है और बोली जमा करने की तिथि 01.10.2022 को 1700 बजे है।

दिनांक: 09.09.2022 स्थान:गुरुग्राम

मुख्य महाप्रबंधक

पश्चिम मध्य रेल सिविल इंजीनियरिंग (निर्माण) ई निविदा सूचना - खुली निविदा

संख्याः उप मृ. ई./नि./कोटा/10/2022

भारतसंघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से उप.मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा निम्नलिखित कार्य के लिए खुली (ई.पी.सी.)निविदा आमंत्रित करते है। निविदा संख्या- उप मु. ई./नि./कोटा/10/2022, कार्य का विवरण -रामगंजमडी भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य में राजगढ-व्यावरा-राजगढ सेक्शन में कि.मी. 146.50 से कि.मी. 164.00 के मध्य (कि.मी. 148.20 से कि.मी. 150.60 को छोडकर) बैंक फिलिंग / कटिंग में मिट्टी का कार्य (ब्लैंकटिंग, कैच वाटर ड्रेन सहित), साइड ड्रेन, टो वॉल, टर्फिंग, ढलानों की पिचिंग, ट्राली रिप्रयुजेस, रोड ओवर ब्रिज नंबर - 17 (1x 36.00मी) एप्रोच सहित निर्माण करना, मेजर ब्रिज नंबर 281 (3x:18.30 मीटर-कम्पोजिट गर्डर) (अजनार नदी), रोड़ अंडर ब्रिज और सीमित ऊचाई वाले रेल के नीचे के पूलों एप्रोच रोड सहित, छोटे पूलों (बॉक्स और पीएससी स्लैब) विंग वॉल आईआरएस ब्रिज कोड / मैनुअल के अनुसार निर्माण करना, रिटर्न वॉल, एबटमेंट, विंग के पीछे बैकफिल और रिटर्न वॉल सहित निर्माण करना, गिट्टी की आपूर्ति एवं एरियल वीडियोग्राफी करना बोल्डर और यदि आवश्यक हो तो नाले का मोड, इस्पेक्शन प्लेटफार्म निरीक्षण सीढी एवं मार्ग, तथा अन्य सहायक कार्य का प्रावधान करना । निविदा बंद होने की तारीख— 16.11.2022, अनुमानित लागत— रू. 162.25 करोड (ट् पैकेट सिस्टम) पूर्ण विवरण वेबसाईट www.ireps.gov.in पर अपलोड की गई ईनिविदा में तथा मुख्य परियोजना प्रंबधक, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। ऑफर ई. निविदा के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें। ई. निविदा के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से निविदा ऑफर स्वीकार नहीं

कोरोना को है हराना, तो टीकाकरण जरूर कराना

€ Kubata

(पूर्व में एसकॉर्ट्स लिमिटेस) CIN: L74899HR1944PLC039088 पंजीकृत कार्यालय 15/5, मधुरा रोड, फरीदाबाद-121003, हरियाणा, इण्डिया फोन: 0129-2250222 | ई-मेल: corpsi@escorts.co.in | वेचराइट: www.escortsgroup.com नेशनल कंपनी लों ट्रिब्यूनल यंडीगढ़ बेंच, यंडीगढ़ (येब आधारित यीडियो कॉनकॅसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से)

धारा 66 के तहत CP No.79/Chd/Hry/2022 कंपनी अधिनियम, 2013 और एनसीएलटी नियम, 2016 का आर 11

याचिकाकर्ता कंपनी

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) / 11, पमरे, कोटा

एरकॉर्ट्स क्बोटा लिमिटेड. और इस प्रकरण के संदर्भ में: CP No-79/2022

प्रकरण में:

किये जायेगें।

एसकॉट्स कुबोटा लिमिटेड सचित किया जाता है कि 14 अगस्त, 2022 को चंडीगढ (बैंच) ट्रिब्यूनल को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे 26 अगस्त 2022 को स्वीकार किया गया । प्रार्थना पत्र के माध्यम से एस्कॉर्ट्स क्बोटा लिमिटेड की शेयर पूंजी को रु. 131,94,06,040 / – (एक सौ इकत्तीस करोड़ चोरानवे लाख छह हजार चालीस) से रु. 110,49,82,610 / - (एक सौ दस करोड़ उन्चास लाख बयासी हजार छह सौ दस) करने के लिए एस्कॉर्ट्स बेनिफिट एंड वेलफेयर ट्रस्ट 'इंबीडब्ल्यटी'), के लिए, डॉ. सतन बेहरिया, द्वारा घारित 2.14,42,343 (दो करोड़ चौदह लाख बयालिस हजार तीन सौ तिरालिस) इक्विटी शेयर्स अंकित मृल्य रू 10 / – प्रति शेयर को बिना

किसी भगतान के रदद करने की पृष्टि करना था। उपरोक्तानुसार व्यक्तिगत लेनदारों को नोटिस जारी किये गए हैं। कंपनी द्वारा 31 जलाई 2022 को तैयार की गई लेनदारों की सूची कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा—121003 पर संभी कार्य दिवसों में 08 सितम्बर, 2022 से 07 दिसम्बर, 2022 के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि कंपनी के किसी लेनदार को आवेदन या लेनदारों की सूची में विवरण पर कोई आपत्ति है, तो उसे (आवश्यक दस्तावेजों के साथ) उसके नाम, पता साथ ही उसके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता, यदि कोई हो, तो विवरण सहित इस सूचना के तीन महीने के भीतर एस्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड, 15 / 5, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियोणा—121003 में अघोहरताक्षरी को भेजा

यदि ऊपर बतायी गई समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो लेनदारों की सूची में प्रविष्टियां, कंपनी की शेयर पूंजी को कम करने के लिए उपरोक्त आवेदन के तहत सेंभी कार्यवाही सही मानी जाएंगी।

यह भी ज्ञात हो कि 08 दिसंबर, 2022 को ट्रिब्यूनल द्वारा मामले पर सुनवाई की जाएगी। यदि

कोई लेनदार सुनवाई में भाग लेने का इरादा रखेता है, तो उसे अपनी आपत्तियों, यदि कोई हो

तो, के साथ अपील कर सकता है। एस्कॉटर्स कुबोटा लिमिटेड के लिए एसडी/-

स्थानः फरीदाबाद दिनांकः ८ सितम्बर, 2022

सत्येंद्र चौहान कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

एस्कॉर्ट्स फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएनः L65910CH1987PLC033652 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 19, औद्योगिक क्षेत्र, फेज 2, चंडीगढ़-160002

फोनः 0129-2250222, ई-मेलः escortsfinance@escorts.co.in, वेबसाइट: www.escortsfinance.com

34वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग सूचना

रतद्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 03:00 बजे ('वीसी') / अन्य श्रव्य दृश्य साचन ('ओएवीएम') के लागू प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम्') और उसके तहत् बनाए गए नियम और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत ('सेबी') (सूचीक्रण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विंनियम, 2015 **('सेबी लिस्टिंग विनियम')** और एमसीए और सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार व्यवसायों को लेन–देन करने के लिए आयोजित की जाएगी ।

सदस्य www.evotingindia.com पर वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकेंगे। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। अधिनियम की धारा 91 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत नोटिस भी दिया गया है, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर ('रोम')

और शेयर ट्रांसफर बुक्स 23 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 (दीनों दिन) तक बंद रहेंगे।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना ('नोटिस') और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, 8 सितंबर, 2022 को कंपनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है. जिनके ई—मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां कंपनी, बीएसई लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वंबसाइट www.escortsfinance.com, www.bseindia.com और www.evotingindia.com पर भी उपलब्धं हैं।

एजीएम ('इंस्टा पोल') के दौरान रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग के लिए निर्देश:

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-वोटिंग') द्वारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अविकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए नीचे दी गई तारीखों (रिमोट ई—वोटिंग') पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम ('इंस्टा पोल') के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे। इंस्टा पोल के जरिए जिन सदस्यों ने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे। ई—वोटिंग से संबंधित यूजर आईडी और पासवर्ड सहित सूचना और निर्देश ई—मेल के माध्यम से सदस्यों को भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेशियल का उपयोग किया जाना चाहिए।

हमें सीडीएसएल के माध्यम से रिमोट ई—वोटिंग सुविधा और इंस्टा पोल की सुविधा देने में प्रसन्नता हो रही है। यह सुविधा आपको एजीएम की सूधना में बताए गए व्यवसाय के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाएगी। रिमोट ई—वोटिंग का विवरण इस प्रकार है:

| रिमोट ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि | 23 सितंबर, 2022 |
|------------------------------|---|
| रिमोट ई-वोटिंग की अवधि | रिमोट ई—वोटिंग की अवधि मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई—वोटिंग को ई—वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। |

वो व्यक्ति, जिसका नाम ('रोम') में दर्ज है या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामकारी मालिकों के रजिस्टर में कट—ऑफ तिथि, यानी शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को दर्ज है, केवल रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा, एजीएम में भाग लेने की सुविधा और इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान करने की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

उन ई—मेल पतों को पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं: जिन सदस्यों ने कंपनी / डिपोंजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नोटिस में निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करें और ई–मेल पंजीकृत करवाएं ताकि वे निर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम हो सकें।

कोई भी व्यक्ति जो नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह युजर आईडी

और पासवर्ड को नोटिस में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। यदि आपके पास ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई—योटिंग मैनुअल को सहायता अनुभाग के तहत देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिखें या टोलफ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क करें।

> बोर्ड के आदेशानुसार एसकॉर्ट्स फाइनेंस लिमिटेड के लिए विक्की चौहान

कंपनी सचिव

स्थानः फरीदाबाद दिनांकः 8 सितंबर, 2022

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंघ बैंक















